

आज दिनांक 2 फरवरी, 2019 को मर्चेट्स चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कानपुर चैप्टर के साथ मिलकर यूनियन बजट, 2019 पर वार्ता का आयोजन मर्चेट चैंबर ऑफ यूपी में किया गया।

विचार.विमर्श अंतरिम बजट 2019 पर आधारित थी। टॉक का उद्घाटन सत्र के प्रमुख वक्ताओं सीए राजीव मेहरोत्रा, सीए धर्मेन्द्र श्रीवास्तव और सीएस पुष्पराज सिंह के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया।

श्री बी.एम. गर्ग, मर्चेट्स चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने अपने मूल्यवान समय को साझा करने के लिए वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत किया।

द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के कानपुर चैप्टर के चेयरमैन सीएस गोपेश साहू ने बातचीत की थीम और इसके उद्देश्य के बारे में जानकारी दी।

प्रत्यक्ष कर पर बात करते हुए सीए राजीव मेहरोत्रा ने कहा कि बजट प्रावधान लोगों के हित में है और सरकार को इस और भी ध्यान देना हचैए कि जैसे रेवेनु विभाग आमदनी को चेक करता है उसी तरह राष्ट्रीय स्तर अपर एक विभाग खर्च को चेक करने के लिए भी होना चाहिए। इसके अलाव उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि बजट आय-व्यय का लेखाजोखा है इसलिए बजट को हमें उसी तरह से लेना चाहिए न कि इसका सिर्फ प्रचार-प्रसार राजनितिक स्तर पर न हो।

सीए धर्मेन्द्र श्रीवास्तव जी वर्ष 2018 में GST के बारे में विस्तार से जानकारी दिया तथा बताया कि डायरेक्ट व इंडिरेक्ट कर दोनों में एकरूपता होनी चाहिए। उन्होंने GST के तात्कालिक संशोधनों के बारे में विस्तार से चर्चा किया।

सीएस पुष्पराज सिंह ने कम्पनीज सशोधन अधिनियम-2019 में MSME के बारे में बताया कि हर कंपनी जो कि MSME के अर्न्तर्गत आती हैं उसके एक रिटर्न फाइल करना होगा जिसमें कोई भी प्राप्ति जो की डिस्प्यूटेड नहीं है, जो कि 45 दिन से अधिक देय है, उसकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी होगी। इसकी अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि हाल में कंपनी कार्य मंत्रालय ने DPT-3 फॉर्म जारी किया है जिसके माध्यम से हर कंपनी को 90 दिन के भीतर सरकार को यह बताना होगा यदि कोई प्राप्ति है और वो अभी तक देय है।

इस अवसर पर मर्चेट्स चैंबर की ओर से सीएस आदेश टंडन, शेष नारायण त्रिवेदी, डॉ. जे. एन. गुप्ता, राकेश अग्रवाल, उमेश पांडेय, राजेश मेहरा टीम, महेंद्र नाथ मोदी, सचिव-मर्चेट्स चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश, आईसीएसआई- कानपुर चैप्टर, वरिष्ठ सीएस सुशील कुमार गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, सीएस मनोज कुमार यादव, सीएस मनीष कुमार शुक्ला, सीएस अरविन्द कटियार, सीएस वैभव अग्निहोत्री, सीएस अजीत पांडे, सीएस स्नेहा बाजपेई, वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी मौजूद थे।

सधन्यवाद